

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के प्रयासों के कारण छोटे कारोबारियों को किराए से राहत मिली

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (24 अप्रैल, 2020) – आज, कारोबारियों की हिमायत के लिए, ब्रैम्पटन के प्रयास सफल हुए हैं, जब फेडरल सरकार ने घोषणा की कि उसने सभी प्रांतों और इलाकों की जरूरतों और सुझावों के आधार पर, छोटे कारोबारियों के लिए, ओनटैरियो-कैनेडा एमरजेंसी कमर्शियल रेंट अस्सिस्टेंट (Ontario-Canada Emergency Commercial Rent Assistance) ([OCECRA](#)) लागू करने के लिए सहमति दे दी है। यह प्रोग्राम, उन छोटे कारोबारियों के लिए किराए को 75 प्रतिशत तक कम करेगा, जो COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) से प्रभावित हुए हैं।

नया ओ.सी.ई.सी.आर.ए. (OCECRA) प्रोग्राम, ब्रैम्पटन में सभी छोटे कर्मचारियों के लिए बेहद आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। गैर-जरूरी कारोबारों के बंद होने की घोषणा के बाद से ही सिटी इस उपाय की हिमायत करती रही है। 1 अप्रैल को, मेयर ब्राउन ने, छोटे कारोबारियों के लिए किराए से राहत की हिमायत करते हुए, प्रीमियर फोर्ड (Premier Ford) और मिनिस्टर क्लार्क (Minister Clark) को एक पत्र भेजा था। मार्च में, COVID-19 को महामारी घोषित किए जाने के बाद से ही, छोटे कारोबारियों के लिए किराए से राहत, मुख्य मुद्दा बन गया था। जब 17 अप्रैल को आयोजित, इकोनॉमिक स्पोर्ट टास्क फोर्स स्मॉल बिजनेस टेली टाउन हॉल (Economic Support Task Force Small Business Tele Town Hall) के दौरान किए गए सर्वेक्षण में सुझाव मांगे गए थे, तो 73 प्रतिशत भागीदारों ने बताया था कि उन्हें किराए से किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है। यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसके बारे में, मेयर की इकोनॉमिक स्पोर्ट टास्क फोर्स (Economic Support Task Force) की सभी COVID-19 संबंधी मीटिंग्स में, फेडरल और प्रांतीय प्रतिनिधियों के साथ विचारविमर्श किया गया था।

[मेयर की COVID-19 इकोनॉमिक स्पोर्ट टास्क फोर्स \(Mayor's COVID-19 Economic Support Task Force\)](#) उन चार टास्क फोर्सिज में से एक है, जो ब्रैम्पटन के निवासियों और कारोबारियों की सहायता के लिए बनाई गई हैं, क्योंकि वे COVID-19 से प्रभावित हो रहे हैं। इकोनॉमिक स्पोर्ट टास्क फोर्स की जिम्मेदारी, ब्रैम्पटन में कारोबारियों को राहत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए, सिफारिशों और उपायों में सहयोग करने की है। COVID-19 के शुरू होने के बाद से ही, यह टास्क फोर्स, ब्रैम्पटन के कारोबारियों का समर्थन करने में सक्रिय रही है। इस टास्क फोर्स में फेडरल और प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ, ब्रैम्पटन बोर्ड ऑफ ट्रेड (Brampton Board of Trade), डाउनटाउन ब्रैम्पटन बिजनेस इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन (बी.आई.ए.) (Downtown Brampton Business Improvement Association) (BIA) और कैनेडियन ब्लैक चैम्बर कॉमर्स (सी.बी.सी.सी.) (Canadian Black Chamber of Commerce) (CBCC) जैसे साझेदार हैं। इस टास्क फोर्स ने छोटे कारोबारियों के साथ, जो टेली टाउन हॉल्स का आयोजन किया था। इन दोनों में कुल 500 कारोबारियों ने हिस्सा लिया था। इसने रेस्टोरेंट सेक्टर और बड़े कारोबारियों के साथ भी दो और हॉल्स का आयोजन किया था। इसके अलावा, स्टाफ ने COVID-19 के शुरू होने के बाद से, ब्रैम्पटन के कारोबारियों की लगभग 1,200 पूछताछ का जवाब दिया है।

### हवाले

“हमारे कारोबारी, हमारे समुदाय के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। COVID-19 संकट शुरू होने के बाद से, हम उनकी सहायता और हिमायत का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यह देखकर हमें खुशी हो रही है कि हमारे प्रयासों के कारण इतने अच्छे उपाय किए जा रहे हैं, जो हमारे कारोबार संबंधी समुदाय के लिए बदलाव लाएंगे। मैं समाधान ढूँढने में हमारे साथ काम करने के लिए, हमारी इकोनॉमिक स्पोर्ट टास्क फोर्स में फेडरल और प्रांतीय प्रतिनिधियों, एम.पी. कमल खैरा, एम.पी.पी. प्रबमीत सरकारिया के साथ-साथ, ब्रैम्पटन बोर्ड ऑफ ट्रेड, डाउनटाउन ब्रैम्पटन बी.आई.ए., और कैनेडियन ब्लैक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ। COVID-19,

आर्थिक तौर पर किसी बड़ी बाढ़ की तरह है, और हमें अपने निवासियों और कारोबारियों की सहायता के लिए इन सबके साथ मिलकर काम करने की जरूरत है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“यह हर किसी के लिए बेहद तनावपूर्ण समय है – विशेषकर हमारे कारोबारियों और ऑपरेटर्स के लिए। हम इस पूरे संकट के दौरान, हमारे कारोबार संबंधी समुदाय के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और उनकी चिंताएं सुनी हैं। उन्हें अपने कारोबारों, अपने कर्मचारियों और अपने भविष्य की चिंता है। हम उन्हें लगातार सहयोग करते रहेंगे क्योंकि हम सभी बहाली और दुबारा अच्छी स्थिति की उम्मीद कर रहे हैं। हमें खुशी है कि यह नया प्रोग्राम, कई कारोबारियों को बड़ी और तुरंत राहत देगा।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और को-चेयर, मेयर की COVID-19 इकोनॉमिक स्पोर्ट टास्क फोर्स

“हालांकि यह संकट, हमारे समुदाय में बहुत-से लोगों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है, फिर भी हमने लोगों में स्थिति से निपटने की शक्ति, दया और सामुदायिक जोश देखा है। हालांकि कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, जो इस चुनौती से उभरकर, इस संकट में सहयोग करने के लिए और भोजन व पैसे दान करने के लिए, अपने कारोबारों को मूल आधार बना रहे हैं। हम अपने समुदाय का समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मैं जानता हूँ कि आप लगातार एक-दूसरे को सहयोग करते रहेंगे और हम इससे बाहर आएंगे।”

- माइकल पलेशी (Michael Palleschi), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 2 और 6, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और को-चेयर, मेयर की COVID-19 इकोनॉमिक स्पोर्ट टास्क फोर्स

-30-

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)